



पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार

The Patent Office, Government Of India

पेटेंट प्रमाण पत्र

Patent Certificate

(पेटेंट नियमावली का नियम 74)

(Rule 74 of The Patents Rules)

पेटेंट सं. / Patent No. : 559665

आवेदन सं. / Application No. : 202441042240

फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 30/05/2024

पेटेंटी / Patente

National Institute of Technology Karnataka

आविष्कारकों का नाम /Name of Inventor(s) :

1.Sandi Kumar Reddy 2.Anil S Naik 3.M Aruna 4.Mandela Govinda Raj

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को, उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकरित AN IOT-ENABLED REAL-TIME EARLY WARNING HAZARD MONITORING SYSTEM FOR UNDERGROUND MINE ENVIRONMENTAL PARAMETERS नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख मई 2024 के तीसवें दिन से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled AN IOT-ENABLED REAL-TIME EARLY WARNING HAZARD MONITORING SYSTEM FOR UNDERGROUND MINE ENVIRONMENTAL PARAMETERS as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 30th day of May 2024 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.



Handwritten signature and name of the Controller of Patents

अनुदान की तारीख : 06/02/2025
Date of Grant :

पेटेंट नियंत्रक
Controller of Patents

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, मई 2026 के तीसवें दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained, will fall / has fallen due on 30th day of May 2026 and on the same day in every year thereafter.